



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 1981/माघ 11, 1902

No. 33]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 1981/MAGHA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य संचालय

संकल्प

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1981

सं० आई०-1-2011(2)/80-प्ल.ए.(ए)—चाय विपणन संबंधी ट्रस्ट्स समिति ने अग्र्य बातों के साथ-साथ नीलामियों के संचालन की सान्निध्य करने और इस काम में चाय बोर्ड को सम्मिलित करने के बारे में विचार किया और अपनी सिफारिशें दीं। समिति ने सिफारिश की कि चाय बोर्ड को भारत में नीलामियों के संचालन के साथ अधिक सक्रिय रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन नीलामियों में ऐसी भूमिका पूरी हो जिससे चाय उद्योग व्यापार, सरकार और उपभोक्ता का लाभ एवम् समाधान हो। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करने हुए चाय नीलामियों संबंधी समिति गठित करने का निश्चय किया है जिसके विचारार्थ विषय इस प्रकार होगा :

- (1) भारत में चाय नीलामी पद्धति के, जो कि विभिन्न चाय केन्द्रों में अपनाई जा रही है, कार्यचालन की सान्निध्य करना ताकि निर्धारित किये जा सकने वाले मांगवर्णी मिश्रणों को तैयार किया जा सके,
- (2) चाय नीलामी पद्धति के कार्यचालन की जांच करना ताकि इसकी उपयोगिता और नीलामी पद्धति में अन्तर्निहित उद्देश्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जा सके,
- (3) पद्धति में सुधार करने के लिए सुझाव देना ताकि उत्पादकों को लाभप्रद कीमत मिल सके और साथ ही साथ उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखा जा सके,

(1) नीलामी केन्द्रों में चाय के प्रवाह और यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार से उसके समुचित वितरण के बारे में विचार करना ताकि सारा साल नियमित एवं निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित हो सके।

(5) चाय के विपणन में संबंधित अन्य कोई मामला।

2. समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) अध्यक्ष—अध्यक्ष/चाय बोर्ड, कलकत्ता।

(ख) सदस्य (पदेन)—

I. निम्नलिखित के अध्यक्ष

- (i) कलकत्ता चाय नीलाम केन्द्र
- (ii) कोचीन चाय नीलाम केन्द्र
- (iii) कुलु चाय नीलाम केन्द्र
- (iv) गोहाटी चाय नीलाम केन्द्र
- (v) मिल्मीगुड़ी चाय नीलाम केन्द्र
- (vi) अमृतसर चाय नीलाम केन्द्र
- (vii) कोयम्बतूर चाय नीलाम केन्द्र

II. निम्नलिखित के प्रतिनिधि

- (i) पश्चिम बंगाल सरकार
- (ii) असम सरकार
- (iii) तमिलनाडु सरकार
- (iv) केरल सरकार

III. छ: सदस्य

चाय उत्पादकों एवं चाय व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चाय बोर्ड द्वारा निर्वाचित।

(ग) सवस्य-सचिव—सचिव, चाय बोर्ड, कलकत्ता

3. समिति का मुख्यालय कलकत्ता में होगा परन्तु समिति की बैठक देश में किसी अन्य स्थान पर हो सकती है। समिति को अन्य सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा।

4. समिति कलेंडर वर्ष के समाप्त होने के तीन महीनों के अन्दर सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

दीन बंधु तेलंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 31st January, 1981

No. I-12011(2)/80-Plant(A).—The Tandon Committee on Tea Marketing inter-alia considered and gave its recommendations about monitoring the conduct of auctions and the association of Tea Board in this work. The Committee recommended that the Tea Board should be more actively associated with the conduct of auctions in India to ensure that these auctions fulfil a role to the advantage and satisfaction of the Tea industry, trade, government and the consumer. The Government of India in accepting this recommendation has decided to constitute a Committee on tea auctions with the following terms of reference :

- (i) to monitor the functioning of the tea auction system in India as being followed at the various tea centres with a view to evolving a set of guidelines that could be prescribed,
- (ii) to examine the functioning of the tea auction system with a view to assessing its utility and the achievement of the objectives implied in an auction system,
- (iii) to suggest improvements in the system with a view to enable producers to get a remunerative price while

at the same time keeping in mind the interests of the consumers,

(iv) to consider the flow of teas to the auction centres and its appropriate regulation, if required, in a manner that ensures regular and uninterrupted supplies throughout the year.

(v) Any other matters relevant to the marketing of teas.

2. The Committee shall consist of the following members—

- (a) Chairman— Chairman, Tea Board, Calcutta.
- (b) Members (Ex-officio)

I Chairman of :

- (i) Calcutta Tea Auction Centre
- (ii) Cochin Tea Auction Centre
- (iii) Coonoor Tea Auction Centre
- (iv) Gauhati Tea Auction Centre
- (v) Siliguri Tea Auction Centre
- (vi) Amritsar Tea Auction Centre
- (vii) Coimbatore Tea Auction Centre.

II Representative of:

- (i) Government of West Bengal
- (ii) Government of Assam
- (iii) Government of Tamil Nadu
- (iv) Government of Kerala.

III Six members :

Elected by the Tea Board to represent tea producers and tea traders.

- (c) Member Secretary—Secretary, Tea Board, Calcutta.

3. The Committee's headquarters will be at Calcutta but the Committee may meet at any other place in the country. The Committee shall have power to co-opt other members.

4. The Committee shall submit an annual report to Government within three months of the close of the calendar year.

D. W. TELANG, Jt. Secy.